

बस्तर दशहरा

चर्चा में क्यों?

19 अक्टूबर, 2021 को सबसे लंबे समय तक चलने वाले (75 दविसीय) वशिष्ठप्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का समापन माता मावली की भावभीनी वदिाई के साथ हो गया। परंपरा अनुसार बस्तर संभाग के 84 परगना और सीमावर्ती राज्यों से आए 450 से अधिक देवी-देवताओं को कुटुंब जात्रा के बाद ससम्मान वदिाई दी गई।

प्रमुख बदि

- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बस्तर दशहरे की शुरुआत पाट जात्रा वधिान के साथ 8 अगस्त, 2021 को हुई थी।
- माँ मावली की डोली व माँ दंतेश्वरी के छत्र की पूरे वधि-वधिान से पूजा-अर्चना की गई। वहीं बस्तर के राजा कमलचंद भंजदेव ने परंपरा के अनुसार माता की डोली को स्वयं कंधे पर उठाया और नगर परकिरमा करवाई।
- दंतेश्वरी मंदिर से प्रगता पथ तक जगह-जगह वशिाल जनसमुदाय ने माता मावली को भावभीनी वदिाई दी। वदिाई रसम के दौरान पुलिसि जवानों ने हर्ष फायरगि भी की।
- उल्लेखनीय है कि बस्तर दशहरा शेष भारत के दशहरे से भिन्न है, क्योंकि शेष भारत में दशहरा रावण के वध के प्रता, जबकि बस्तर दशहरा दंतेश्वरी माता के प्रतासिम्पति है। यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर अश्वनि शुक्ल त्रयोदशी तक चलता है।
- बस्तर की यह रयिासतकालीन परंपरा 620 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इसका प्रारंभ काकतीयवंशीय शासक पुरुषोत्तमदेव (1408 से 1439 ई.) ने किया था।